

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

एक मिनी रत्न कंपनी'

(कोल इंडिया लिमिटेड का एक अंग)

जन संपर्क विभाग

कोयला भवन, कोयला नगर

धनबाद - 826005



BHARAT COKING COAL LIMITED

'A Mini Ratna Company'

(A Subsidiary of Coal India Limited)

Public Relation Department

Koyla Bhawan, Koyla Nagar

Dhanbad- 826005 (Jharkhand).

दिनांक : 26.09.2017

### प्रेस विज्ञप्ति

केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठक बीसीसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज दिनांक 26.09.2017 को कोयला भवन के बोर्ड रूम में आयोजित की गयी। उपस्थित सभी केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों का औपचारिक रूप से स्वागत महाप्रबंधक (कार्मिक एवं औ० सं०) श्री उत्तम आइच द्वारा किया गया।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए बीसीसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री ए के सिंह ने उपस्थित सभी केन्द्रीय सलाहकार समिति सदस्यों द्वारा दिये जा रहे सहयोग तथा सुझाव की सराहना करते हुए कहा कि सभी कर्मचारी, स्टाफ और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों का योगदान सराहनीय है और खास कर आपकी प्रमुख भूमिका है जो अति सराहनीय है। श्री अजय कुमार सिंह ने श्रमिक प्रतिनिधियों के सभी समस्याओं तथा सुझाव का स्वागत करते हुए कहा कि हमें सभी समस्याओं का समाधान करते हुए कंपनी को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाना होगा।

श्रमिक प्रतिनिधियों ने अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का स्वागत पुष्प-गुच्छ से किया। तत्पश्चात श्रमिक प्रतिनिधियों ने अध्यक्ष सह प्रबंध महोदय को कंपनी के ज्वलंत समस्याओं से अवगत कराते हुए उत्पादन तथा अन्य समस्याओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी।

प्रबंधन की ओर से अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री अजय कुमार सिंह के अलावा निदेशक (वित्त/कार्मिक) श्री के एस राजशेकर, निदेशक (तकनीकी) योजना व परियोजना श्री देवल गंगोपाध्याय, महाप्रबंधक(असैनिक) श्री आर एम प्रसाद, महाप्रबंधक (कार्मिक एवं औ० सं०) श्री उत्तम आइच तथा श्रमिक प्रतिनिधियों की ओर से पूर्व विधायक श्री बच्चा सिंह, श्री एस के बक्शी, श्री अर्जुन सिंह, श्री के डी पाण्डेय, श्री के पी गुप्ता तथा श्री आर तिवारी उपस्थित थे।

**उपमहाप्रबंधक(जन संपर्क)**

